

BANGALORE BEJIING CAPE TOWN CHANDIGARH DELHI GOA HYDERABAD JOHANNESBURG KOLKATA LONDON LOS ANGELES MUMBAI NEW YORK SINGAPORE TORONTO VANCOUVER

Date: February 18, 2021

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400 001 E-mail: <u>corp.relations@bseindia.com</u> (Scrip code: 532748) National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra-Kurla-Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 E-mail: <u>takeover@nse.co.in</u> (Symbol: PFOCUS)

Dear Sir,

Reg.: Open Offer to the Public Equity Shareholders of Prime Focus Limited ("Target Company")

This is with reference to the captioned subject, In terms of Regulation 26(7) of SEBI (SAST) Regulations, 2011 a meeting of Committee of Independent Directors of the Company was held on February 12, 2021 to provide a reasoned recommendation on the open offer to the public equity shareholders of the Company.

We wish to inform you that "**Recommendation of the Committee of Independent Directors** (IDC) on the Open Offer" in terms of Regulation 26(7) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, has been published today in Financial Express (English National Daily), Jansatta (Hindi National Daily), Navshakti – (Regional Language Daily at the place of the registered office of the Target Company and the place of Stock Exchange where the maximum volume of trading in equity shares of Target Company are recorded).

We are enclosing herewith a copy of IDC as published in the newspapers in terms of Regulation 26(7) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

Should you require any further information we shall be pleased to furnish the same.

Thanking you and assuring you of our best co-operation at all times.

Yours Sincerely, For **Prime Focus Limited**

Íarine Shah

Parina Shah Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: a/a

13

FINANCIAL EXPRESS

SML ISUZU LIMITED

Regd. Office : Village Asron, Distt. Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) 144 533. Phone: (91)-1881- 270255, Fax: (91)1881-270223. CIN : L50101PB1983PLC005516. Website address: www.smlisuzu.com Email : investors@smlisuzu.com

NOTICE


| Folio no. | Name of shareholder | Share Certificate no. | Distinctive nos. | No. of shares |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| 36628 | Sheela Datt | 61167-68 | 8830406-8830505 | 100 |
| 904509 | Hadfa Khalid Gulam Hader | 94151-55 | 10479601-10479850 | 250 |
| 79916 | Samir S. Shah Sanjay S. Shah | 96021-28 | 7210821-7210870 8481006-8481055 6827421-6827470 7806771-7806820 10422851-10422950 | 50 50 50 50 100 |

Any person who has a claim or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate share certificate in lieu of the above is required to notify the same to the company at its registered office within 15 days from the date of this notice indicating the nature of the claim or lien or interest of his objection to the said issue of duplicate share certificate through an affidavit duly attested. Else the company will proceed to issue duplicate share certificate without entertaining any claim/ damage whatsoever it may be. For SML ISUZU LIMITED

Place: Chandigarh Date: 17.02.2021

| | | Tel/Fax: 01982-255567, E-mail: divcomladakh@gmail.com | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | - | NOTICE INVITIO | G e-TENI | DER | | | |
| | nr) 144 533. C005516. | Reg Mar eithe Res | hufacturer/Authorized Distributors/Dealer registered by those who are dealine to the comparison of the theory of the termination of termination o | adakh, e-Tende overnment lers and those F ng with the sup d by UT Adminis | rs are invited from the Department/Original Firms/Dealers who are ply of " Disaster and stration Ladakh. | | | |
| milisuzu.c | | | he tender will come in force with effect detail of items is as under: | ct from 02.02.20 | 121 by 04.00 P.M. | | | |
| | | S.N | o. Name of the Item | Specification | Period of Contract | | | |
| e nos. | No. of shares | 1. | Disaster and Rescue Equipment | Annexure "A" | One Year (Can be extended) | | | |
| 830505 | 100 | 1. 1 | he bidding documents, Bill of quantiti | ies (BOQ), set o | of Terms & Conditions | | | |
| 479850 | 250 | | of the contract and other details can b www.tenders.ladakh.gov.in as per the | | | | | |
| 210870 | 50 | [i) | Date of issue of Tender Notice | 02.02.2021 | 1 | | | |
| 481055 827470 | 50 50 | 11) | Date of Publishing of Tender Notice | 03.02.2021 | (4.00 P.M.) | | | |
| 806820 0422950 | 50 100 | TII) | Period of Downloading of Bidders Document | 03.02.2021 24.02.2021 | (4.00 P.M.) to (3.00 P.M.) | | | |
| | on to the issue | iv) | Online Bid Submission Date of Star | t 03.02.2021 | (4.00 P.M.) | | | |
| | he company at of the claim or | V) | Online Submission End Date | 24.02.2021 | (3.00 P.M.) | | | |
| cate through an affidavit hare certificate without r SML ISUZU LIMITED (PARVESH MADAN) Company Secretary | | vi) | Date of receiving the Hard Copies of CDR, DD and Affidavit in original & attested copies of other documents. | 24.02.2021 | (4.00 P.M.) to (3.00 P.M.) | | | |
| | | vii) | Date of Opening of the Tender | | 12.00 P.M. or any convenient to commit- rs. | | | |
| | | | LEH-636 Divisio | -/Sd nal Commissio | oner, UT Ladakh. | | | |

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, UT LADAKH



Use Company was originally incorporated as Party Cruisers Private Limited on December 02, 1994 under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra. Subsequently, the name of the company was changed from "Party Cruisers Private Limited" to "Party Cruisers Limited" under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on September 03, 2013 and had obtained fresh certificate of incorporation dated November 13, 2013 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra. For further details of our Company, see "General Information" and "History and Certain Other Corporate Matters" on pages 46 and 117, respectively.

Registered Office: 303/304/305, Simran Plaza, Khar 4th Road, Next to Regal Enclave Hotel, Khar (West), Mumbai - 400 052, Maharashtra, India Tel. No.: +91 22 49739352 | Email: compliance@partycruisersindia.com | Website: www.partycruisersindia.com

Contact Person: Ms. Namrata Subhash singh Negi, Company Secretary & Compliance Officer

PPROMOTER OF THE COMPANY: MR. ZUZER HATIM LUCKNOWALA & MRS. RACHANA ZUZER LUCKNOWALA



PUBLIC ISSUE OF 15.20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF PARTY CRUISERS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE ₹ 51/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 41/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 775.20 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 76,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR A CASH PRICE OF ₹ 51/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 38.76 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 14,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 51/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 736.44 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL



Mideast Integrated Steels Limited CIN: L74899DL1992PLC050216

Regd. Off: H-1, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony, New Delhi - 110 048 Website: www.mescosteel.com; Ph. No. 011-29241099 & 40587085

or the Statement of Onaduned Financial Results for the quarter ended sour Jun

| - 1 | | | Standalon | e Results | | Consolidated Results | | |
|-----------|---|--|--|--|---|--|--|---|
| S. No. | Particulars | Quarter Ended 30-Jun-20 Unaudited Rs. in Mn | Quarter Ended 30-Jun-19 Unaudited Rs. in Mn | Quarter Ended 31-Mar-20 Audited Rs. in Mn | Year Ended 31-Mar-20 Audited Rs. in Mn | Quarter Ended 30-Jun-20 Unaudited Rs. in Mn | Quarter Ended 30-Jun-19 Unaudited Rs. in Mn | Year Ended 31-Mar-20 Audited Rs. in Mn |
| 1 | Total Income from Operations | 4.84 | 1,595.27 | 257.00 | 4,473.22 | 4.84 | 1,607.17 | 4,508.28 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or | (157.81) | (219.43) | (104.50) | (537.69) | (223.04) | (362.98) | (936.68) |
| 4 | Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or | (157.81) | (219.43) | (104.50) | (537.69) | (223.04) | (362.98) | (936.68) |
| 5 | Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)] | (167.81) | (239.43) | (119.50) | (597.69) | (233.04) | (382.98) | (996.68) |
| 200 | for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (167.26) | (238.68) | (118.93) | (596.37) | (232.49) | (382.23) | (996.19) |
| 6 7 | Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share) Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in balance sheet of previous year) | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 | 1378.75 | 1,378.75 |
| 8 | Earning per share (of Rs.10/- each)(for continuing and discontinued operations) | (4.00) | 24 - 22 | (0.57) | | // 00 | (0.50) | 17.00 |
| | Basic (Rs.) Diluted (Rs.) | (1.22) (1.22) | (1.74) (1.74) | (0.87) (0.87) | (4.34) (4.34) | (1.69) (1.69) | (2.78) (2.78) | (7.23) (7.23) |

Extract of the Statement of Unadulted Financial Results for the quarter and han year ended soun September, 2020

| | | | Standalone | | | Consolidated | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| S. No. | Particulars | Quarter Ended 30-Sep-20 Unaudited Rs. in Mn | Quarter Ended 30-Sep-19 Unaudited Rs. in Mn | Half Year ended 30-Sep-20 Unaudited Rs. in Mn | Quarter ended 30-Sep-20 Unaudited Rs. in Mn | Quarter ended 30-Sep-19 Unaudited Rs. in Mn | Half year ended 30-Sep-20 Unaudited Rs. in Mn |
| 1 | Total Income from Operations | 353.59 | 1,520.80 | 358.43 | 353.59 | 1,521.45 | 358.43 |
| 2 3 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or | 59.68 | (206.48) | (98.15) | (5.55) | (276.74) | (228.61) |
| 4 | Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or | 59.68 | (206.48) | (98.15) | (5.55) | (276.74) | (228.61) |
| 5 | Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for | 54.68 | (216.48) | (113.15) | (10.55) | (286.74) | (243.61) |
| Ŭ | the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 54.88 | (216.38) | (112.40) | (10.35) | (286.64) | (242.86) |
| 6 7 | Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share) Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in balance sheet of previous year) | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 |
| 8 | Earning per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) | | | | | | |
| | Basic (Rs.) | 0.40 | (1.57) | (0.82) | (0.08) | (2.08) | (1.77) |
| | Diluted (Rs.) | 0.40 | (1.57) | (0.82) | (0.08) | (2.08) | (1.77) |

Extract of the Statement of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020

| - | | | Standalone | | Consolidated | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| S. No. | Particulars | Quarter Ended 31-Dec-20 Unaudited Rs. in Mn | Quarter Ended 31-Dec-19 Unaudited Rs. in Mn | Nine Months Ended 31-Dec-20 Unaudited Rs. in Mn | Quarter ended 31-Dec-20 Unaudited Rs. in Mn | Quarter ended 31-Dec-19 Unaudited Rs. in Mn | Nine Months Ended 31-Dec-20 Unaudited Rs. in Mn |
| 1 | Total Income from Operations | 352.45 | 1,100.15 | 710.88 | 352.45 | 1,100.15 | 710.88 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or | 41.75 | (7.30) | (56.40) | (25.41) | (7.29) | (254.02) |
| 5 | Extraordinary items) | 41.75 | (7.30) | (56.40) | (25.41) | (7.29) | (254.02) |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 36.75 | (22.30) | (76.40) | (30.41) | (22.29) | (274.02) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) | 50.75 | (22.00) | (10.40) | (30.41) | (22.23) | (214.02) |
| | for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 37.25 | (22.40) | (75.15) | (29.91) | (22.39) | (272.77) |
| 6 | Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share) | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 | 1,378.75 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in balance sheet of previous year) | - | | | - | - | |
| 8 | Earning per share (of Rs.10/- each)(for continuing and discontinued operations) | | | | | | |
| | Basic (Rs.) | 0.27 | (0.16) | (0.55) | (0.22) | (0.16) | (1.99) |
| | Diluted (Rs.) | 0.27 | (0.16) | (0.55) | (0.22) | (0.16) | (1.99) |

CONSTITUTE 27.14 %AND 25.79 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 209 OF THIS PROSPECTUS.

ISSUE OPENS ON: MONDAY, FEBRUARY 22, 2021 CLOSES ON: THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00 EACH AND THE ISSUE PRICE OF ₹ 51.00 IS 5.1 TIMES OF THE FACE VALUE

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE "SECTION XII- ISSUE RELATED INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 209 OF THE PROSPECTUS.

ASBA* Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below. Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted.

UPI now available in ASBA for retail individual investors applying through Registered Brokers, DPs, & RTAs.

Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being blocked by ASBA Bank. List of Banks supporting UPI is also available on SEBI at www.sebi.gov.in

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 218 of the Prospectus. The process is also available on the website of SEBI and Stock Exchange in the General Information Document. ASBA forms can be downloaded from the website of NSE and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the EMERGE platform of NSE Limited ("NSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated February 03, 2021 from NSE Limited ("NSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the EMERGE platform of NSE Limited. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of NSE beginning on page 202 of the Prospectus. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Prospectus was furnished to SEBI in soft copy. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 198 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE Limited (NSE) should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by NSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page 202 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to NSE".

| LEAD MANAGER TO THE ISSUE | REGISTRAR TO THE ISSUE | COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER |
|-------------------------------------|--|---|
| First Overseas Capital Limited | KFin Technologies Private Limited | Ms. Namrata Subhashsingh Negi |
| 1-2 Bhupen Chambers, Ground Floor, | Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, | Party Cruisers Limited |
| Datal Street, Mumbai-400 001 | Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, | 303/304/305, Simran Plaza, Khar 4th Road, Next to |
| Tel. No.: +91 22 40509999 | Serilingampally, Hyderabad, | Regal Enclave Hotel, Khar (West), Mumbai – 400 052, |
| Fax No.: N.A. | TelanganaIndia - 500 032. | Maharashtra, India Tel.No.: +912249739352; |
| Email: sunu@focl.in/mala@focl.in | Tel. No.: +91 40 6716 2222 | Email: compliance@partycruisersindia.com |
| Investor Grievance Email: | Fax No.: +91 40 2343 1551 | Website: www.partycruisersindia.com |
| investorcomplaints@focl.in | E-mail: pcl.ipo@kfintech.com | Applicants can contact the Compliance Officer or the LM |
| Website: www.focl.in | Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com | or the Registrar to the Issue in case of any Pre-Issue or |
| Contact Person: Mr.Sunu Thomas / | Website: www.kfintech.com | Post-Issue related problems, such as non-receipt of |
| Ms. Mala Soneji | Contact Person: Mr. M Murali Krishna | Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the |
| SEBI Registration No.: INM000003671 | SEBI Registration No.: INR000000221 | respective beneficiary account or unblocking of funds etc. |

BANKER TO THE ISSUE AND SPONSOR BANK: HDFC BANK LIMITED

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of Party Cruisers Limited, Lead Manager: First Overseas Capital Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can also be obtained from the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Application Forms can also be downloaded from the website of Stock Exchange at www.nseindia.com. AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in the website of Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.focl.in and the website of the Issuer Company at www.partycruisersindia.com. GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section, "Risk Factors" on page 21 of the Prospectus.

| | Diluted (Rs.) | 0.27 | (0.16) | (0.55) | (0.22) | (0.16) | (1.99) |
|------------------|--|--|--|--|---|--|---|
| 1 2 3 4 | The above results have been reviewed and recommended by the Audit Comm In pursuance to the Judgement dated 2nd August, 2017 of Honorable Suprem 924.75 crores has been imposed on the Company towards 'Compensation Royalty was paid on the ores extracted. Since the amount was not paid by the had filed a 'Curative petition' (Civil) before the Honorable Supreme Court of In quarter. Provision for the above compensation along with interest has not to towards partial satisfaction of the Compensation demand raised by Demand Company managed to get an extension of further six months vide last order 2020, Rs. 78.32 crores including GST till December 2020 and Rs. 116.39 crore There was arbitration award received in June 2019 for Rs. 718 crores. The Co award and hence not making any provision in the books. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial F 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available of | ne Court of India, in t o' as determined in o stipulated date, the ndia challenging the peen made in the bo Notice dated 02.09 of dated 24th Novemi es including GST till company has already Results filed with the on the websites of th | he matter of Writ Pe the said Judgement Honorable Suprem Judgement in Marc boks of accounts. Fi 2017. The Compar ber, 2020. The Com 15th February 2021 appealed to this Av Stock Exchanges u e Stock Exchanges u | tition (Civil) No. 114 of 20 t which was to be paid b e Court ordered to stop m h 2018 however the petiti urther the realization among is in process to sell the spany has deposited with I under protest towards C ward. The appeal has bee under Regulation 33 of the s) and the listed entity. ww | 14 (Common Cause by 31st December 2 ining operations will on has been dismis ount from said sale iron ore and to com the Government R ompensation amou in admitted in the Hi e SEBI (Listing and | e v/s Union of India 8 2017, eventhough th th effect from 1st Ja sed by the Supreme should be deposite apply with the norms, s. 51.19 crores incl nt. gh Court. The Comp | Conters), an amount of R he Government Taxes ar anuary 2018. The Compar Court during the reportin d with the State of Odish it is further to be noted th uding GST till Secptemb pany is confident to win th |
| 5 | Previous periods figures have been regrouped / rearranged wherever necess | ary to conform to the | e current period's cla | assification(s). | F | | of the Board of Directon ntegrated Steels Limite |

Place : New Delhi Date : 17.02.2021

.

×

PEL



Registered Office: Prime Focus House, Linking Road, Opp. Citi Bank, Khar (West), Mumbai, Maharashtra, 400 052; CIN: L92100MH1997PLC108981; Tel. No: 022-67155000; Fax No: 022-67155001 / 67155100; Website: www.primefocus.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Prime Focus Limited on the Open Offer to the Public Shareholders of the Prime Focus Limited, under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations").

| 1. | Date of meeting | February 12, 2021 |
|-------------|---|---|
| 2. | Name of the Target Company (TC) | Prime Focus Limited ("Target Company") |
| 3. | Details of the Offer pertaining to TC | A2R Holdings ("Acquirer") along with ARR Studio Private Limited ("PAC 1") and Mr. Namit Malhotra ("PAC 2", together with PAC 1 "PACs") acting in their capacity as persons acting in concert with the Acquirer, have made an open offer for acquisition of up to 8,23,71,046 (Eight Crores Twenty Three Lakh Seventy One Thousand Forty Six) fully paid up equity shares of face value of INR 1 (Rupee One) each of the Target Company ("Equity Share"), representing 26% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company, from the Public Shareholders, in terms of Regulation 3(2) and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations ("Offer"). |
| | | The Acquirer has entered into a share purchase agreement, dated December 24, 2020 ("SPA"), wherein the Acquirer has agreed to acquire 10,49,39,361 (Ten Crore Forty Nine Lakh Thirty Nine Thousand Three Hundred and Sixty One) Equity Shares of the Targe Company, representing 33.12% of the Expanded Voting Share Capital ("Sale Shares"), from IDBI Trusteeship Services Limited (acting in its capacity as debenture trustee on behalf of and for the benefit of Credit Suisse AG, Singapore Branch), in 2 (two) tranches at INR 44.15 (Rupees Forty Four and Fifteen paisa) per Sale Share, subject to, and in accordance with the terms of the SPA. |
| | | The Acquirer is a part of the promoter and promoter group of the Target Company. As on the date of the Public Announcement for the Offer, the promoter and promoter group of the Target Company held 10,46,07,641 (Ten Crore Forty Six Lakh Seven Thousand Six Hundred and Forty One) Equity Shares aggregating to 33.02% of the Expanded Voting Share Capital. Since the Acquirer entered into the SPA to acquire the Equity Shares in excess of 5% of the Expanded Voting Share Capital, in this financial year, the Offer has been made by the Acquirer and the PACs under Regulation 3(2) and other applicable provisions of the SEBI SAST Regulations. |
| 4 | Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer | Name of the Acquirer: A2R Holdings Persons Acting in Concert with Acquirer: 1. ARR Studio Private Limited; and 2. Mr. Namit Malhotra; |
| 5 | Name of the Manager to the offer | Keynote Financial Services Limited |
| | | The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028 |
| | | Tel: +91-22-6826 6000-3 |
| | | Fax: +91-22-6826 6088 SEBI Registration No. INM 000003606 |
| | | Contact Person: Ms. Pooja Sanghavi / Mr. Shashank Pisat |
| | | Email: mbd@keynoteindia.net, Website: www.keynoteindia.net |
| 6 | Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately) | Mr. Samu Devarajan (Chairman) Mr. Rivkaran Chadha Mr. Kodi Raghavan Srinivasan |
| 7 | IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any | The members of the IDC ("IDC Members") are independent and non-executive directors of the Target Company. Further the IDC Members do not hold any Equity Shares or other securities of the Target Company, and other than their position as a director of the Target Company, there is no other contract or relationship between the IDC Members and the Target Company. |
| 8 | Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members | None of the IDC Members have traded in the Equity Shares or other securities of the Target Company, since their respective appointment on the board of the Target Company. |
| 9 | IDC Member's relationship with the | None of the IDC Members are directors of Acquirer and PAC 1; |
| | acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any | None of the IDC Members hold any equity shares of Acquirer and PAC 1; and None of the IDC Members have any contractual relationship with Acquirer and the PACs. |
| 10 | Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members | None of the IDC Members have traded in the shares/other securities of the Acquirer and PAC 1. |
| 11 | Recommendation on the open offer, as to whether the offer is fair and reasonable | The IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable, and in line with the SEBI (SAST) Regulations. |
| 12 | Summary of reasons for recommendation | The IDC Members have reviewed a) the public announcement dated December 24, 2020 ("PA"), b) Detailed Public Statement ("DPS") published on January 1, 2021, c) Draft Letter of Offer dated January 8, 2021 ("DLOF") and d) LOF. |
| | | The members of IDC considered the following facts: a) the volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, by the Acquirer, during the 52 (Fifty Two) weeks and 26 (Twenty Six) weeks immediately preceding the date of the Public Announcement was ₹ 44.00/-; b) the Acquirer and the PACs have made the Offer pursuant to execution of the SPA for purchase of the Sale Shares from IDBI Trusteeship Services Limited (acting in its capacity as debenture trustee on behalf of and for the benefit of Credit Suisse AG, Singapore Branch), in 2 (two) tranches, at INR 44.15 (Rupees Forty Four and Fifteen paisa) per Sale Share; c) Since the Equity Shares of the Target Company are infrequently traded (within the meaning "infrequently traded shares" under clause (j) of sub regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI (SAST) Regulations), the fair value of the Equity Shares of Target Company, as arrived by Ms. R. B. Pandya & Co, Chartered Accountant ('Valuer') vide their valuation report dated December 23, 2020, was ₹ 40.50 (Rupees Forty and Fifty paisa) per equity share. Based on the above facts and review of the PA, DPS, DLOF and LOF the IDC is of the opinion that the Offer Price of ₹ 44.15 (Rupees Forth Four and Fifty paisa) per equity share. |
| | | Forty Four and Fifteen paisa) per equity share offered by the Acquirer and the PACs prima facie appears to be: (a) in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) fair and reasonable. However, the shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Offer. |
| 13 | Details of Independent Advisors, If any. | None |
| 14 | Any other matter(s) to be highlighted | None |
| Fo t not | he best of our knowledge and belief, a | after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct an any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEI |
| | an an ann an | For and on behalf of the IDC of Prime Focus Limited |

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

MAIN OBJECTS OF THE COMPANY AS PER MOA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 117 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 307 of the Prospectus. LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The Liability of the members of the Company is Limited.

CAPITAL STRUCTURE: Authorized Capital of the Company is ₹ 6,00,00,000 consisting of 60,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 4,08,00,000 consisting of 40,80,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 5,60,00,000 consisting of 56,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page 56 of the Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Mr. Zuzer Lucknowala (10 Equity Shares) and Mr. Joji George (10 Equity Shares).

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated February 12, 2021. Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 21 of the Prospectus before making any investment decision.

| Place: Mumbai | | |
|-------------------------|--|--|
| Date: February 17, 2021 | | |

For Party Cruisers Limited subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.focl.in the website of the NSE i.e. www.nseindia.com, and website of the Issuer Company at www.partycruisersindia.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 21 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Place: Mumbai Date: February 17, 2021

For PARTY CRUISERS LIMITED On behalf of the Board of Directors

> Rachana Lucknowala Managing Director

Sd/-







Rita Singh

DIN:00082263

Chairperson cum Managing Director





14 जनसत्ता, 18 फरवरी, 2021

खल



मुकाबले में बैकहैंड शाट

खेलते हुए।

आइपीएल फ्रेंचाइजी

किंग्स इलेवन पंजाब का

नाम पंजाब किंग्स हुआ

इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) की

फ्रेंचाडची किंग्स डलेवन पंजाब ने चेन्नई

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

मैक्सवेल के लिए बोली लगा सकते हैं आरसीबी व सीएसके

चेन्नई, 17 फरवरी (भाषा)।

आस्टेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजी आलराउंडर मोईन अली पर गुरूवार को यहां होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। नीलामी के लिये कुल 292 खिलाड़ियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 164 भारतीय और 125 विदेशी हैं। नीलामी में तीन एसोसिएट खिलाड़ी भी होंगे।

आठ फ्रेंचाइजी टीमों को 61 स्थान भरने हैं जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को सबसे ज्यादा 11 स्थान पर खिलाडियों को चुनना है। इसके लिए उनके पास 35.4 करोड़ रूपए हैं जबकि सनराइजर्स

हैदराबाद के पास केवल तीन ही स्थान उपलब्ध हैं जिसके लिए उनके पास 10.75 करोड़ रुपए हैं। सबसे ज्यादा राशि अनिल कुंबले की कोचिंग वाली पंजाब किंग्स (पहले किंग्स इलेवन पंजाब) के पास हैं। उनके पास नौ स्थान के लिए 53.20 करोड उपलब्ध हैं। कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल पिछले साल संयक्त अरब अमीरात में

कराया गया था लेकिन अब इसका आयोजन भारत में होगा जिससे सभी का ध्यान बिग हिटर और धीमी गति गेंदबाजों पर लगा होगा जिसमें मैक्सवेल और मोईन पुरी तरह से फिट बैठते हैं। हालांकि मैक्सवेल का टूर्नोमेंट में रेकार्ड इतना अच्छा नहीं है, उनका औसत 22 का है और उन्होंने 82 मैच खेलकर 1505 रन बनाए। अंतिम बार वह पंजाब के लिए खेले थे।

वहीं दूसरी ओर मोईन पिछले सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हुए नजर आए थे। मैक्सवेल और उनके पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ दोनों

सबसे ज्यादा बोली लगाने के वर्ग में हैं जिसकी राशि दो करोड़ रुपए की है। इसमें एक नाम सभी के आकर्षण का केंद्र होगा और वह दुनिया के नंबर एक रैंकिंग पर काबिज इंग्लैंड के टी20

बल्लेबाज डेविड मलान हैं। उनका स्ट्राइक रेट 19 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में करीब 150 का है जिससे कुछ टीम इस 33 साल के खिलाड़ी पर उनके 1.5 करोड़ के आधार मूल्य से ज्यादा की बोली लगाना पसंद करेंगी। मुंबई इंडियंस (15.35 करोड़ रूपये) और दिल्ली कैपिटल्स (13.40 करोड़ रूपये) को क्रमश सात और आठ खिलाडी चाहिए।

नीलामी में एक टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर भी सभी की निगाहें लगी होंगी क्योंकि पिछला 2020 सत्र उनके लिए काफी खराब रहा जिसमें वह टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार आइपीएल के प्ले ऑफ के लिये क्वलीफाई नहीं कर पाई। महेंद्र सिंह धोनी और मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने अपनी टीम में युवाओं के बजाय अनुभव को अहमियत दी है। इसका उदाहरण रोबिन उथप्पा हैं जिन्होंने पांच सत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन ट्रेडिंग विंडो के दौरान चेन्नई ने उन्हें राजस्थान रॉयल्स से पूर्ण-नकद करार के तहत लिया।


फ्रेंचाइजी के करीबी एक सूत्र ने कहा, 'धोनी किस तरह के खिलाड़ी चुनते हैं, यह देखना होगा। हमेशा उन्हीं खिलाड़ियों को दबाव भरे हालात से निपटने का अनुभव होता है जो मध्यम स्तर के सीनियर खिलाडी होते हैं। यह मायने नहीं रखता कि क्रिकेट जगत में बतौर खिलाडी उसका रूतबा कैसा है।' उन्होंने कहा. 'केवल एक बार ही केदार जाधव

के साथ उनकी उम्मीदें सटीक नहीं बैठीं। या फिर वह थोडे सीनियर खिलाडियों को पसंद करते हैं और जिन्हें मैच की जानकारी भी हो।' इसलिए चेन्नई के पास छह स्थान भरने के लिये 20 करोड़ (19.90 करोड़) रूपए हैं और धोनी मध्यक्रम में खुद की, सुरेश रैना और फाफ डु प्लेसिस की मदद के लिये किसी बिग हिटर को शामिल करना चाहेंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स पर सभी की निगाहें

आइपीएल भारत में कराया जा रहा है तो मैक्सवेल को उनके खराब रिकार्ड के बावजुद धीमी पिचों पर उनकी कसी हुई ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के लिए चुना जा सकता है। जहां तक मलान का संबंध है तो किंग्स इलेवन पंजाब अपने पास मौजूद राशि और शीर्ष क्रम में आक्रामकता की कमी को देखते हुए उन्हें चुन सकता है। हालांकि वह भारतीय हालात में धीमी गेंदबाजों के खिलाफ कैसा खेलते हैं, यह चर्चा का विषय है। भारतीय खिलाडियों में तीन 'कैप्ड' खिलाड़ी काफी अहम हैं जो केदार जाधव, अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और

तेज गेंदबाज उमेश यादव हैं। जहां तक भारतीय खिलाडियों की बात है तो नीलामी प्रक्रिया विदेशी खिलाड़ियों की तुलना में काफी अलग रही है। उदाहरण के तौर पर युवराज सिंह या जयदेव उनादकट लगातार खराब प्रदर्शन के बावजुद अच्छे करार में इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि उनके पास एक विशेष कौशल है। इसी तरह स्टीव स्मिथ के साथ जिनका बेस प्राइस काफी ज्यादा है और स्टाइक रेट शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के तौर पर शानदार नहीं है, तो अगर कोई फ्रेंचाइजी उचित कप्तानी उम्मीदवार ढंढ रही है तो ठीक, वर्ना उन्हें ज्यादा बोली लगाने वाली टीम नहीं मिलेंगी। इसी तरह 'अनकैप्ड' (जिसने कोई अंतरराष्टीय मैच नहीं खेला हो) घरेलु खिलाडी जैसे केरल के मोहम्मद अजहरूदीन (जूनियर), तमिलनाडु के शाहरूख खान, आल राउंडर आर सोनू यादव, बड़ौदा के विष्णु सोलंकी और बंगाल के आकाश दीप कुछ अच्छी राशि में बिक सकते हैं।



आइपीएल

नीलामी

मेलबर्न, 17 फरवरी (एपी)।

रूस के टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने गर्मी के कारण मांसपेशियों में खिचाव के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में बुधवार को यहां हमवतन आंद्रेय रूबलेव को हराकर

अंक के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने लगभग दो घंटे तक चले मैच के बाद कहा, 'यह आसान नहीं था।' यहां लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में खेले गए इस मैच में कई लंबी रैलियां देखने को मिली।

उन्होंने कहा, 'मैच के दौरान कई अविश्वसनीय रैली देखने को मिली चौथी वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने और अंक हासिल करने के बाद सांस लेने में उनका सामना रफेल नडाल और स्टेफानोस सिटिसिपास के बीच खेले जा रहे दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा।



में 2021 के लिए होने वाले खिलाड़ियों की नीलामी से पहले अपना नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर लिया। बधवार को टीम का नया लोगो (प्रतीक विन्ह) जारी किया गया। टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश मेनन ने ब्रांड की नई पहचान के बारे में कहा, 'पंजाब किंग्स एक अधिक विकसित ब्रांड नाम है, और हम समझते हैं कि यह हमारे लिए मुख्य ब्रांड पर ध्यान देने का सही समय है मोहित बर्मन, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा और करण पॉल की टीम अभी तक एक बार भी आइपीएल नहीं जीत सकी है ।

डुप्लेसिस ने टैस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, अब टी२० होगी प्राथमिकता

जोहानिसबर्ग, १७ फरवरी (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने बुधवार को टैस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की और अब वे छोटे प्रारूपों विशेषकर टी२० के अपने करिअर पर ध्यान देंगे। इस 36 वर्षीय खिलाडी ने इंस्टाग्राम पर अपने पेज में बयान जारी करके यह घोषणा की। डुप्लेसिस ने लिखा, 'यह हम सभी के लिए मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने वाला साल रहा। कभी अनिश्चितता भी रही लेकिन इससे कई पहलुओं को लेकर मेरी स्पष्ट राय बनी। मेरा दिल साफ है और यह नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए सही समय है।' उन्होंने कहा, 'खेल के सभी प्रारूपों में देश का प्रतिनिधित्व करना सम्मान है लेकिन अब मेरे लिए टैस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का समय आ गया है।' वे अब टी20 प्रारूप पर ध्यान देंगे लेकिन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (वनडे) भी उनकी योजना का हिस्सा बना रहेगा। डुप्लेसिस ने कहा, 'अगले दो साल आईसीसी टी20 विश्व कप होगा। इस वजह से मैं अपना ध्यान इस प्रारूप पर केंद्रित कर रहा हूं।

सेमीफाइनल में जगह पक्की की।

रूबलेव को 7-5, 6-3, 6-2 से हराकर में भी परेशानी हो रही थी।' सेमीफाइनल लगातार 19वीं जीत के साथ तीसरी बार ग्रैंडस्लैम के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। मेदवेदेव ने कहा कि उनके बाएं पैर में काफी दर्द हो रहा था और आखिरी तीन

फिट होने पर अंतिम दो टैस्ट मैचों 🛞 में ठाकुर की जगह लेंगे उमेश नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)। रूट ने मोईन

उमेश यादव अगर फिट घोषित कर दिए जाते हैं तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में होने वाले आखिरी दो टैस्ट मैचों के लिए शार्दुल ठाकुर की जगह भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा।

भारतीय चयनकर्ताओं ने बुधवार को अंतिम दो टेस्ट मैचों के लिए टीम का चयन किया और 18 में से 17 खिलाड़ियों को इसमें बनाए रखा। बीसीसीआइ के सचिव जय शाह ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'उमेश यादव अहमदाबाद में टीम से जुड़ेंगे और उनकी




फिटनेस का आकलन होने के बाद वह शार्दुल ठाकुर की जगह लेंगे जिन्हें विजय हजारे ट्राफी

में खेलने की अनुमति दे दी गई है।' उमेश आस्ट्रेलिया के

खिलाफ मेलबर्न में खेले गए दूसरे टैस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। उनकी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके बाद वे स्वदेश लौट आए थे।

एक अन्य तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एडीलेड में पहले टैस्ट मैच के दौरान ही चोटिल हो गए थे और माना जा रहा है कि वह पांच दिन मैच के लिये अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हैं।

बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम को पहले टैस्ट मैच में खराब प्रदर्शन के बाद स्टैंड बाइ खिलाड़ियों की सूची से हटा दिया गया है। लेग स्पिनर राहुल चाहर और विकेटकीपर बल्लेबाज कोना श्रीकर भरत को स्टैंड बाई खिलाड़ियों में रखा गया है। प्रियांक पांचाल और अभिमन्यु मिथुन को भी विजय हजारे ट्राफी में खेलने के



लंदन, १७ फरवरी (भाषा)।

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने मोईन अली से अपने उस बयान के लिए मांगी है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस आलराउंडर ने भारत के खिलाफ दूसरे टैस्ट मैच के बाद स्वदेश लौटने का विकल्प चुना है जबकि वास्तव में यह राष्ट्रीय टीम की रोटेशन नीति का हिस्सा है।

चेन्नई में दूसरे टैस्ट मैच में आठ विकेट लेने और दूसरी पारी में 18 गेंदों पर 43 रन बनाने वाले मोईन ने मुल योजना पर अमल किया और 10 दिन के विश्राम पर ब्रिटेन लौटने का फैसला किया। मोईन का एशेज 2019 के बाद यह पहला मैच था। 'मिरर' समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार रूट ने 'स्वदेश लौटने का विकल्प चुनने के अपने बयान के लिए टीम होटल में मोईन से माफी मांगी ब्रिटेन के कुछ अन्य समाचार पत्रों ने भी इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की है। रूट ने चेन्नई में मंगलवार को इंग्लैंड की दूसरे मैच में 317 रन से करारी हार के बाद कहा, 'मोईन ने स्वदेश लौटने का विकल्प चुना है। हमने शुरू में ही स्पष्ट किया था कि अगर खिलाड़ियों को लगता है कि वे जैव सुरक्षित वातावरण से बाहर निकलना चाहते हैं तो उनके पास इसका विकल्प है।' मोईन की तरह सभी प्रारूप में खेलने वाले जोस बटलर पहले टैस्ट मैच के बाद स्वदेश लौट गए थे और सीमित ओवरों की श्रंखला के लिए वापस भारत जाएंगे। बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को हाल में भीनंतर होने में निश्राम दिया गया था।

| ind | er Regulation 26(7) of Securities and | Independent Directors ("IDC") of Prime Focus Limited on the Open Offer to the Public Shareholders of the Prime Focus Limite Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations"). |
|--------|---|--|
| 57.0.8 | | t specifically defined herein, shall have the meanings ascribed to them under the Letter of Offer dated February 9, 2021 ("LOF") |
| 1. | Date of meeting | February 12, 2021 |
| 2. | Name of the Target Company (TC) | Prime Focus Limited ("Target Company") |
| 3. | Details of the Offer pertaining to TC | A2R Holdings ("Acquirer") along with ARR Studio Private Limited ("PAC 1") and Mr. Namit Malhotra ("PAC 2", together with PAC "PACs") acting in their capacity as persons acting in concert with the Acquirer, have made an open offer for acquisition of up 8,23,71,046 (Eight Crores Twenty Three Lakh Seventy One Thousand Forty Six) fully paid up equity shares of face value of INF (Rupee One) each of the Target Company ("Equity Share"), representing 26% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company, from the Public Shareholders, in terms of Regulation 3(2) and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulation ("Offer"). |
| | | The Acquirer has entered into a share purchase agreement, dated December 24, 2020 ("SPA"), wherein the Acquirer has agreed acquire 10.49,39,361 (Ten Crore Forty Nine Lakh Thirty Nine Thousand Three Hundred and Sixty One) Equity Shares of the Targ Company, representing 33.12% of the Expanded Voting Share Capital ("Sale Shares"), from IDBI Trusteeship Services Limite (acting in its capacity as debenture trustee on behalf of and for the benefit of Credit Suisse AG, Singapore Branch), in 2 (two) tranche at INR 44.15 (Rupees Forty Four and Fifteen paisa) per Sale Share, subject to, and in accordance with the terms of the SPA. |
| | | The Acquirer is a part of the promoter and promoter group of the Target Company. As on the date of the Public Announcement for the Offer, the promoter and promoter group of the Target Company held 10,46.07,641 (Ten Crore Forty Six Lakh Seven Thousand S Hundred and Forty One) Equity Shares aggregating to 33.02% of the Expanded Voting Share Capital. Since the Acquirer entered in the SPA to acquire the Equity Shares in excess of 5% of the Expanded Voting Share Capital, in this financial year, the Offer has be made by the Acquirer and the PACs under Regulation 3(2) and other applicable provisions of the SEBI SAST Regulations. |
| | Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer | Name of the Acquirer: A2R Holdings |
| | | Persons Acting in Concert with Acquirer: 1. ARR Studio Private Limited; and 2. Mr. Namit Malhotra; |
| 5 | Name of the Manager to the offer | Keynote Financial Services Limited |
| | | The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028 Tel: +91-22-6826 6000-3 |
| | | Fax: +91-22-6826 6088 |
| | | SEBI Registration No. INM 000003606 |
| | | Contact Person: Ms. Pooja Sanghavi / Mr. Shashank Pisat |
| | | Email: mbd@keynoteindia.net, Website: www.keynoteindia.net |
| 6 | Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately) | Mr. Samu Devarajan (Chairman) Mr. Rivkaran Chadha Mr. Kodi Raghavan Srinivasan |
| | IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any | The members of the IDC ("IDC Members") are independent and non-executive directors of the Target Company. Further the IDC Members do not hold any Equity Shares or other securities of the Target Company, and other than their position as a director of the Target Company, there is no other contract or relationship between the IDC Members and the Target Company. |
| | Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members | None of the IDC Members have traded in the Equity Shares or other securities of the Target Company, since their respective appointment on the board of the Target Company. |
| 9 | IDC Member's relationship with the | - None of the IDC Members are directors of Acquirer and PAC 1; |
| | acquirer (Director, Equity shares | - None of the IDC Members hold any equity shares of Acquirer and PAC 1; and |
| | owned, any other contract / relationship), if any | None of the IDC Members have any contractual relationship with Acquirer and the PACs. |
| _ | Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members | None of the IDC Members have traded in the shares/other securities of the Acquirer and PAC 1. |

PRIME FOCUS LIMITED

| लावरपूल न लिपाजग को २-० से हराया | लिए कहा गया है। | त्रालका पार म वित्राम पिया गया या। | 10 Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members | None of the IDC Members have traded in the shares/other securities of the Acquirer and PAC 1. |
|--|--|--|--|---|
| बुडापेस्ट, १७ फरवरी (एपी)। | टैस्ट आलराउंडरों की सूची में | में उपलब्धि बल्लेबाज कोहली पांचवें स्थान पर | 11 Recommendation on the open offer as to whether the offer is fair and reasonable | The IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable, and in line with the SEBI (SAST) Regulations. |
| लिवरपूल ने मोहम्मद सलाह और साडियो माने के गोल की मदद से चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में लिपजिग को 2–0 से हराया। लिवरपूल की टीम पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रही है लेकिन जर्मन टीम लिपजिग के खिलाफ उसने रक्षापंक्ति की गलतियों का पूरा फायदा उठाया और अंतिम–16 के पहले चरण के मैच में जीत दर्ज की। प्रीमियर लीग में खिताब की दौड़ में पिछड़ने के बाद लिवरपूल को इस जीत से कुछ राहत मिली होगी। सलाह ने 53वें मिनट में लिपजिग के मार्सेल सैबित्जर के | पांच के स्था दुबई, 17 फरवरी (भाषा)। भारत के रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड वे मैच में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की ताजा विश्व रैंकिंग में आलराउंडरों की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि कन विराट कोहली बल्लेबाजों में पांचवें | (397) और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (352) का नंबर आता है। गेंदबाजों की सूची में 34 वर्षीय अश्विन 804 अंकों के साथ सातवें स्थान पर बने हुए हैं जबकि जसप्रीत | 12 Summary of reasons for recommendation | The IDC Members have reviewed a) the public announcement dated December 24, 2020 ("PA"), b) Detailed Public Statement ("DPS") published on January 1, 2021, c) Draft Letter of Offer dated January 8, 2021 ("DLOF") and d) LOF. The members of IDC considered the following facts: a) the volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, by the Acquirer, during the 52 (Fifty Two) weeks and 26 (Twenty Six) weeks immediately preceding the date of the Public Announcement was ₹ 44.00 ¹ ; b) the Acquirer and the PACs have made the Offer pursuant to execution of the SPA for purchase of the Sale Shares from IDBI Trusteeship Services Limited (acting in its capacity as debenture trustee on behalf of and for the benefit of Credit Suisse AG, Singapore Branch), in 2 (two) tranches, at INR 44.15 (Rupees Forty Four and Fifteen paisa) per Sale Share; c) Since the Equity Shares of the Target Company are infrequently traded (within the meaning "infrequently traded shares" under clause (j) of sub- regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI (SAST) Regulations), the fair value of the Equity Shares of Target Company, as arrived by Ms. R. B. Pandya & Co, Chartered Accountant ('Valuer') vide their valuation report dated December 23, 2020, was ₹ 40.50 (Rupees Forty and Fifty paisa) per equity share. Based on the above facts and review of the PA, DPS, DLOF and LOF the IDC is of the opinion that the Offer Price of ₹ 44.15 (Rupees Forty Four and Fifteen paisa) per equity share offered by the Acquirer and the PACs prima facie appears to be: (a) in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) fair and reasonable. However, the shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Offer. |
| गलत पास का फायदा उढाकर लिवरपूल | स्थान पर बने हुए हैं। | पर हैं। बुमराह को चेन्नई टैस्ट में विश्राम | 13 Details of Independent Advisors, if any. | None |
| को बढ़त दिलाई। इसके पांच मिनट बाद | अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ | दिया गया था। आस्ट्रेलिया के पैट | 14 Any other matter(s) to be highlighter | d None |
| लिपजिग के डिफेंडर नोर्डी मुकीले ने गलती की जिसका फायदा उठाकर माने लिवरपूल की तरफ से दूसरा गोल दागने में सफल रहे। | चेन्नई में दूसरे टैस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी में 106 बनाए तथा मैच में लिए। भारत ने यह मैच 317 रन से आलराउंडरों की सूची में उनके 336 उ | आठ विकेट पर हैं। चेन्नई में शून्य और 62 रन की पारियां ने जीता था। खेलने वाले कोहली बल्लेबाजों की सूची में 838 | | after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI For and on behalf of the IDC of Prime Focus Limited Sd/- Authorised Signatory |

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 38, अंक 93, हवाई शुल्क: इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।



www.readwhere.com



















सांकेतिक कब्जा सूचना



शाखा कार्यालय: आयसीआयसीआय बॅंक लि., कार्यालय क्र. २०१-बी, २ रा मजला, रोड क्र. १, प्लॉट क्र.- बी३, वायफाय आयटी पार्क, वागळे इंडस्ट्रीयल ईस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र- ४००६०४.

ज्याअर्थी निम्नस्वाक्षरीकारांनी आयसीआयसीआय बँक लिमिटेडचे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् अँण्ड एन्कोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये आणि कलम १३(९२) सहवाचता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्कोर्समेंट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून सदर सूचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांत सूचनेत नमुद केलेली रक्षम चुकती करण्यासाठी खालील नमूद कर्जदारांना (दीवाण हाऊसिंग फायनान्स लि. द्वारे आयसीआयसीआय बँकेला देण्यात आलेल्या अभिस्तांकना अंतर्गत) डीएचएफएल आणि कर्जदार यांच्या दरम्यान झालेल्या कर्ज कराराला अनुसरुन गृहकर्ज सुविधा मंजूर करण्याच्या संदर्भात तारणाच्या अंमलबजावणीच्य संबधातील मागणी सूचना जारी केली आहेत.

कर्जदारांनी सदरह रक्षम चुकती करण्यास कसूर केलेली आहे म्हणून कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेला सूचना याद्वारे देण्यात येते की. निम्नस्वाक्षरीकारांनी खालील नमुद तारखेरोजीस सदरह अधिनियमाच्या कलम १३(४) सहवाचता सदरह नियमावलीच्या नियम ८ अन्वये त्याला/तिला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील वर्णिलेल्या मिळकतीचा कब्जा घेतलेला आहे. विशेषत: कर्जदार अणि सर्वसामान्य जनतेला याद्वारे सावधान करण्यात येते की, त्यांनी सदरह मिळकतीच्या देवधेवीचा व्यवहार करु नये आणि सदरह मिळकतीच्या देवधेवीचा कोणताही व्यवहार हा आयसीआयसीआय बँक लिमिटेडच्या प्रभाराच्या अधीन राहील.

| अ. क्र. | कर्जदाराचे नाव/कर्ज खाते क्रमांक (डीएचएफएल जुने एलएएन आणि आयसीआयसीआव नवीन एलएएन) | मिळकतीचे वर्णन/सांकेतिक कब्जाची तारीख | मागणी सूचनेची तारीख/मागणी सूचनेतील रक्कम (रु.) | शाखेचे नाव |
|------------|--|--|--|---------------|
| 10 10 | संतोष तुकाराम पवार आणि स्वाती संतोष पवार- स्वुझेडव्हीएसआय००००५००२२०७ (डीएचएफएल ओल्ड लॅन-०२५००००९६६३ आणि आयसीआयसीआय न्यु लॅन- क्युझेडव्हीएसआय००००५०२२०७) | सिद्धाय इमा., जय नगर, फेडरल बॅंक जवळ आणि | | वसई |
| | असाराम गुंडोपंत खोडसकर आणि आरती असाराम खोडसकर – क्युझेडएयुआर००००५००४४०५ (डीएचएफएल ओल्ड लॅन–१०४००००२०९५ आणि आयसीआयसीआय न्यु लॅन– क्युझेडएयुआर००००५००४४०५) | रेसिडन्सी, प्लॉट क्र. १४ ते १७, ३४ ते ४१, गट | ξ. | औरंगाबाद |
| 14 | भिमसेन किसनराव सरकटे आणि विजया भिमसेन सरकटे– बयुझेडएयुआर००००५०१८०८८ (डीएचएफएल ओल्ड लॅन– १०४००००१७९७ आणि आयसीआयसीआय न्यु लॅन– बयुझेडएयुआर००००५०१८०८८) | ४५ आणि ४६, गट क्र. ३, सातारा औरंगाबाद, | ऑगस्ट २७, २०२० रु. ७,३५,४१०.००/- | औरंगाबाद |
| 10 | राजेंद्र अन्नाराव धोणे आणि मनिषा राजेंद्र धोणे– क्युझेडएयुआर००००४१९९५१४ (डीएचएफएल ओल्ड लॅन– १०४००००३७६३ आणि आयसीआयसीआय न्यु लॅन– क्युझेडएयुआर००००४९९५५१४) | क्र. ५१, समर्थ नगर, जोगेश्वरी, गंगापूर | | औरंगाबाद |

| सूचन |
|------|
| |

जनतेला यादारे सचना देण्यात येते की, माझे अशीत में वर्धमान एंटरपायडोसचे पोपायटर थी संजय कांतिलाल दोशी ज्यांचे कार्यकारी कार्यालय आं यनिट क्र. १५, रामगोपाल इंडस्टियल इस्टेट, डॉ आर.पी. रोड, मुलंड-पश्चिम, मुंबई-४०० ०८० यांनी रामगोपाल इंडस्ट्रियल इस्टेट क्र. १ प्रिमायसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, डॉ, राजेंट प्रसाद रोड, मुलुंड पश्चिम, मुंबई ४०००८० येथे स्थित तळमजल्यावरील युनिट क्र. १५, मोजमापिल १०२० चौ फट चटई क्षेत्राच्या विकीकरीता विकेत म्हणन मे. राज्यश्री इंडस्टियल लॅण्ड डेव्हलपमें कार्पोरेशन आणि खरेदीदार म्हणून श्रीम. उमादेव एस. नेवतिया यांच्यामधील निष्पादित दिनांक ५ डिसेंबर, १९७३ रोजीचा पर्वीचा मळ करार ह एकतर गोळा केला नाही किंवा हरविला/गहाव झाला आहे.

कोणत्याही व्यक्तीला सदर करार सापडल्यास किंव ताब्यात असल्यास त्यांनी निम्नस्वाक्षरीकारांन कळवावे आणि जर कोणत्याही व्यक्ती, बँक किंव वित्तीय संस्थेला सटर मिलकतीच्या संदर्भामध्ये कोणताही दावा किंवा हक जसे की, वारसाहक शेअर, विक्री, गहाण, भाडेपट्टा, धारणाधिकार परवाना, बक्षीस, ताबा किंवा कोणत्याही प्रकारच भार किंवा वरील सदर मळ करार असल्यास त्यांने यातारे निम्नस्वाक्षरीकारांना त्यांचा पत्ता डी-८७-८८, मुलुंड दर्शन, जी.जी.एस. रोड, मुलुंड कॉलनी, मुलुंड (प.), मुंबई ४०००८२ येथे सर्व परव कागदपत्रासह सत्य प्रतींसह त्यांच्या दाव्याच्या य सूचनेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्य आत कळविणे आवश्यक आहे. कसर केल्यास. तशा व्यक्ती किंवा व्यक्तींचे प्रस्तावित हक नामाधिकार, हितसंबंध, लाभ, दावा किंवा मागर्ण जर असल्यास ते त्यागित आणि/किंवा परित्यागि समजले जातील आणि/किंवा उपरोक्त वेळेनंतर दावे ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ सही/

शंकरलाल रहेज

वकील

पुर्नविकासाचे काम रद्द करण्याची सूचना

रेल्वेमेन्स अपना घर 'सी' ग्रुप को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि., (नों. क्र. बीओएम/डब्ल्यु-केई/एचएसजी/(टीसी)६१४२/सन ९२-९३ दिनांक २०.०७.१९९२) च्या वतीने आणि करिता तमाम जनतेला सूचना याद्वारे देण्यात येते की, आम्ही ०१.०२.२०२१ पासून मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा नोंदणी जिल्हा आणि उपजिल्ह्यातील गाव मोगरा, तालुका अंधेरीच्या प्रॉपर्टी कार्डनुसार एकूण मोजमापित साधारण २३४०४.६ चौ. मी. सर्व्हे क्र. २३-ए, हिस्सा क्र. ७, संलग्न सीटीएस क्र. ३४५ आणि ३४५/१ ते ९ धारक मोठ्या लेआऊट पैकी सामायिक आरजी आणि अंतर्गत रस्ता क्षेत्रामधील प्रमाणशीर शेअर अधिक मोजमापित साधारण ४३२५.०३ चौ. मीटर्स मिळकतीवरील जुने पंप हाऊस, शिवाजी नगर, जोगेश्वरी (पू) मुंबई - ४०००६० येथे स्थित जमिनीच्या सर्व त्या भाग किंवा विभागाच्या प्लॉटच्या पुर्नविकासाकरिता मे. झनिरा प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सर्व प्राधिकारी आणि श्री. रवि शंकर पसुपुलेत्ती यांच्या नावे सोसायटीच्या मिळकतीच्या पुर्नविकासाचे कंत्राट रद्द केले आहे.

मे. झनिरा प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि श्री. रवि शंकर पसुपुलेत्ती आणि जनतेच्या सभासदांना सुद्धा याद्वारे ताकीद आणि सावधान करण्यात येते की, त्यांनी सदर रितसर रद्द केलेल्या कंत्राटाच्या बळावर आणि/किंवा आधारे सदर प्लॉटच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करू नये कारण तो आमच्यावर बंधनकारक राहणार नाही.

दिनांकः ११.०२.२०२१ ठिकाण : मुंबई

disht

अध्यक्ष/सचिव

d2h

बिशटीवी इंडीया लिमिटेड

कॉर्पोपेट कार्यालयः FC-19, सेक्टर-16A, नोएडा - 201 301, (उ.प.) र्वलियः 18वा मजला, ए विंग, मॅराथन फ्युचरेक्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-400013, महाराष्ट्र BPLC287553, दूरध्वनी क्रमांकः 0120-5047005/5047000, फॅक्स क्रमांकः 0120-4357078 CIN: L51909M

ई-मेलः । तपट r@dishd2h.com, वेवसाईटः www.dishd2h.com

कॉल मनी डिमांड तथा फोरफिचर नोटिस

नोटिस याद्वारे देण्यात येते की दिनांक 26 नोव्हेंबर, 2008 च्या पत्राच्या अनुशंगाने ("**राईट्स इश्यु**") प्रत्येव रु.22/- च्या (प्रति इक्विटी शेअर रु.21/- च्या प्रीमियमसह) इश्यु किंमतीवर राईट्स तत्वावर जारी केलेल्य प्रत्येकी रू.1 च्या इक्विटी शेअर्सच्या संदर्भात 5 मार्च, 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी थकित कॉल मनी त्यावरील व्याजासह जमा करण्यासाठी, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ("**कंपनी"**) च्या कॉल मनी न भरलेल्या अंशतः पेड-अप इक्विटी शेअर्सधारकांना दिनांक 12 फेब्रुवारी, 2021 रोजीची कॉल मनी डिमांड तथा कोरफिचर नोटिस (**"नोटिस"**) जारी केली आहे.

दिनांक 12 फेब्रुवारी, 2021 रोजीच्या नोटिसीनुसार, कंपनीने भागधारकांना थकित कॉल मनी त्यावरील व्याजासह, कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनच्या अनुसार, 5 मार्च, 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी भगप्रामाती एकत्रितपूर्ण २१ दिवसांची नोटिस दिली आहे

पहिल्या आणि/किंवा दुसऱ्या कॉल मनीचा भरणा संबंधित कॉल्सवरील व्याजासह केवळ अनुक्रमे "DISH TV INDIA LIMITED - FIRST CALL" आणि "DISH TV INDIA LIMITED - SECOND CALL" या नावे, मुंबई इथे देय काढलेल्या डिमांड ड्राफ्टद्वारे करावयाचा आहे.

5 मार्च, 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी थकित कॉल मनी त्यावरील व्याजासह ज्यांच्या बाबतीत प्राप्त झालेल आहे असे राईट इक्विटी शेअर्स, कंपनीच्या इक्विटी शेअर्सच्या संपूर्णपणे पेड-अप ISIN INE836F01026 मध्ये जमा केले जातील आणि त्यांचे सूचिकरण आणि व्यवहार करण्यासाठीची योग्य ती प्रक्रिया कंपनीद्वारे सुरु केली जाईल. कोणत्याही विलंबित प्राप्तीसाठी कंपनी आणि/किंवा त्यांचे निबंधक उत्तरदायी असणा नाहीत आणि अशा प्रलंबित प्राप्ती नाकारण्याचा अधिकार त्यांनी राखून ठेवला आहे.

5 मार्च, 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी थकित कॉल मनी त्यावरील व्याजासह ज्यांच्या बाबतीत प्रा झालेला नाही असे राईट इक्विटी शेअर्स, कंपनी कायवा, 2013 च्या लागू तरतुवी सोबत कंपनीचे आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन आणि 26 नोव्हेंबर, 2008 रोजी ऑफर पत्रामध्ये नमूद इश्युच्या अटींनुसार कोणत्याही पुढील नोटिसीविना फोरफिचरसाठी (त्यावरील यापूर्वी पेड-अप रक्कमेसह)

| | डिश टीवी इंडीया लिमिटेड करि |
|---------|-----------------------------|
| | हस्ता |
| t, 2021 | रणजित सि |

| स्थळः नवी दिल्ली | कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकार | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

दिनांकः १७ फेब्रुवारी

क्रिसिल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: क्रिसिल हाउस, सेंट्रल अव्हेन्यू, हिरानंदानी बिझनेस पार्क, पवई, मुंबई – ४०० ०७६ सीआयएन: एल६७१२०एमएच१९८७पीएलसी०४२३६३ दूरध्वनी: ०२२-३३४२३०००, फॅक्स: ०२२-३३४२३००१ साइट: www.crisil.com; ईमेल: investors@crisil.com

नोटीस

गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधी प्राधिकरण जसे वेळोवेळी दुरूस्ती (लेखांकन, लेखापरीक्षण, हस्तांतरण आणि परतावा) नियम, २०१६ ('नियम') ह्यांच्या अनुरोधाने ही नोटीस प्रकाशित करण्यात येत आहे.

सर्व समभाग ज्या संदर्भात सलग सात वर्षांत भागधारकांद्वारे लाभांशावर दावा केला गेला नाही तसे सर्व समभाग गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधीच्या नावे हस्तांतरित करण्याची तरतुदी नियमांमध्ये इतर बाबींमधील आहे.

त्यानुसार, १७ एप्रिल २०१४ रोजी डिव्हिडंडस् संदर्भात असलेले शेअर्स आणि सात वर्ष नियतकालिकाचा कालावधी १९ मे २०२१ रोजी न चुकता/हक्क न लावलेल्या भागांकरता गुंतवणूकदार प्रशिक्षण आणि संरक्षण निधीमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.

कंपनीने योग्य कृती करण्यासाठी गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधीमध्ये हस्तांतरीत करावयाच्या शेअर्सच्या तपशीलांसह, इतर गोष्टींबरोबर, संबंधित भागधारकांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर विशिष्ट

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to the public at large that my client Bipin Himatlal

Sanghavi residing at B-1,301/302,

Breezy Corner, Opp. Panchsheel

Heights, Mahavir Nagar, Kandivali West

Mumbai - 400067. Intent to purchase

Shop premises bearing Shop No. 07,

Ground Floor, Sundaram, Vasant

Complex co-operative Housing Society

imited, Sector A, Near Mahavir Nagar,

Behind Dahanukar wadi, Kandivali (W),

Mumbai - 400067, (hereinafter called and

referred to as "The Said Shop") from Mr

Pravinchandra C Doshi & Mrs. Divya P.

Doshi. And if any person/s having or

claiming to have any rights, title, interest

to the said Shop or under or in the nature

of any for the same etc. should

inform/Contact me at my following

address within 14 days from the date of

publication of this notice with necessar

supporting evidence of his/her/thei

claim/s, failing which it shall be deemed to

have waived their objection and claim

Sd./-DILIP P. BEDI, Advocate Shop No. 214, Ajanta Square Shopping Centr Market Lane, Borivali (W), Mumbai 400092. Date: 17/02/2021 Place: Mumb

याद्वारे **जाहीर सूचना** देण्यात येते की, आम्ही जुह्

तारा रोड, सांताक्नुझ (पश्चिम), मुंबई ४०० ०४९

येथील क्वीन्स व्हूव प्रिमायसेस को-ऑपरेटिव्ह

सोसायटी लिमिटेड म्हणून ज्ञात इमारत येथे स्थित

दोन्ही (१) श्रीम. लक्ष्मी भगवानदास अदानी यांचे

उपरोक्त सोसायटीद्वारे जारी शेअर प्रमाणपत्र क्र. २७

यासह सोळाव्या मजल्यावरील मोजमापित ८४०

चौरस फूट बांधिव क्षेत्राचा फ्लॅट क्र. ६३ च्या

संदर्भात, (२) श्री. योगेश भगवानदास अदानी, यांचे

उपरोक्त सोसायटीद्वारे जारी शेअर प्रमाणपत्र क्र. २८

वासह सोळाव्या मजल्यावरील मोजमापित ६१०

चौरस फूट बांधिव क्षेत्राचा फ्लॅट क्र. ६४ च्या

संदर्भात, मालकी हक, नामाधिकार आणि

हितसंबंध तपासत आहोत (यापुढे एकत्रित **''सदर**

सर्व व्यक्ती समाविष्टीत वैयक्तिक, हिंदु अविभाजित

कुटुंब, कंपनी, बँका, वित्त संस्था, नॉन बॅकिंग वित्त

संस्था, फर्म, व्यक्तिंचे मंडळ आणि वैयक्तिक मंडळ

स्थापित किंवा नाही, सावकार आणि/किंवा धनको

ज्यांना मिळकत किंवा त्यावरील कोणत्याही

भागावर कोणत्याही प्रकारचा हक्क, नामाधिकार,

इस्टेट किंवा हितसंबंध जसे की विक्री, हस्तांतर अदलाबदल, अभिहस्तांतर, गहाण, नामाधिकार

विलेख भरणा द्वारे गहाण, प्रभार, बक्षीस, विश्वस्त,

करारनामा, मुनिमेंट, वारसाहक, दावा, ताबा,

भाडेपट्टा, उप-भाडेपट्टा, परवाना, धारणाधिकार

शेअर, कुळवहिवाट, उप-कुळवहिवाट, निर्वाह,

ताबा, सुविधाधिकार, मृत्यूपत्र, मृत्यूपत्रित देणगी,

भार, एफएसआय कंझम्पशन, प्रलंबित-वाद,

उत्तराधिकारी, समज्तीचे ज्ञापन, लिखित, कटंब

व्यवस्था/वाटाघाटी, लाभार्थी हितसंबंध,

कोणत्याही न्यायालयीन कोर्टाचा हुकूम किंवा

आदेश, कंत्राट/करार किंवा अन्य काहीही जर

असल्यास तसे याद्वारे लिखीत स्वरुपात नमूद करून

दस्तावेजीय पुरावे नोटरी केलेल्या प्रमाणित सत्य

प्रतीसह निम्नस्वाक्षरीकारांना त्यांच्या कार्यालयात पत्ता वाडिया घांदी अँण्ड कं., वकील,

सॉलिसिटर्स ॲण्ड नोटरीज, एन. एम. वाडिया

इमारत, २रा मजला, १२३ महात्मा गांधी रोड,

मुंबई - ४०० ००१ येथे या सूचनेच्या प्रकाशनाच्या

तारखेपासून १० (दहा) दिवसांच्या आत कळवावे,

कसूर केल्यास, वरील सदर मिळकतीमधील

कोणत्वाही तशा प्रस्तावित दावा किंवा

हितसंबंधाच्या कोणत्याही संदर्भ किंवा

संबंधाशिवाय कोणतेही तशा व्यक्तींचे दावे जर

असल्यास सर्व हेतु आणि इच्छेनुसार ते त्यागित

आणि किंवा परित्यागित समजण्यात येतील. १०

(दहा) दिवसांच्या कालावधी पूर्णनंतर आक्षेप प्राप्त

झाल्यास ते आमच्या अशीलांवर बंधनकारक

वाडिया घांदी ॲण्ड कं

सुरज जुनेजा

भागीदा

असणार नाहीत

मिळकत'' म्हणून संदर्भित).

without any further intimation.

जाहीर सूचना शिष्टः प्लॉट क्र. ३५बी, ९२.९३ चौमी, सर्वे क्र. २५। श्लीसा क्र: १एच–ओ-३२-६२ आर पोटखराबा

एच-०-०८-०९, गोखिवरे तालू वसई पालघर एम.एस. वरील जमिन आणि रचना. याद्वारे सूचना देण्यात येते की, माझे अशिल श्री. मनोजकुमा पांडे- निवासी रूम क्र. १३, रतनदीप निवास, ग्रेशियस इमारत समोर, महाकाली केल्स रोड, अंधेरी(पू), मुंबई-९३ हे खालील नमूद मिळकत पी.टी. जोस आणि कुजम्मा जोस यांच्याकडूने खरेदी करण्यास इच्छुक आहेते. कोणतीही व्यक्ती, संस्था, सोसायटी, कंपनी किंवा कोणतेही कॉर्पोरेट मंडळ ज्यांना वरीलसदर विक्रीवर कोणताही हक जसे की धारणाधिकार, प्रभार, गहाण, विक्री किंवा भेट असल्यास मल केंवा माझ्या अशिलांना तसे दावे किंवा आक्षेप या सूचनेच्या गरखेपासून १५ दिवसांत दाखल करावेत. कस्र् केल्यास आम्हे असे समज की सदर मिळकतीमधील त्यांचे दावे. आक्षेप किंवा हक त्यांनी त्यागीत/परित्यागीत केले आहेत आणि आमचे अशिल व्यवहार पूर्ण करतील. सही/-

विनीत सुकुमरन(वकील) ७/श्री श्मीवास नगर असल्फा डोमेटरीजवव मोहीली गाव, मुंबई-४०००७३

जाहीर सूचना

तमाम जनतेला यादारे सचना देण्यात येते की, माझे अशिल हे १) श्री. शिखर मधोक आणि २) श्री. किरन मधोक (विक्रेते) हे याखाली लिहिलेल्या परिशिष्टामध्ये अधिक सविस्तर विवरणीत प्लॉट क्र. सीटीएस क्र १८५, साकी विहार रोड, तुंगवा गाव कुर्ला (प.), मुंबई - ४०००७२ येथे स्थित बी-विंग मधील ५ व्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र. ५०३ (फ्लॅट) यासह "हर्षवर्धन सीएचएस लि.' इमारतीमधील एका कार पार्किंगमधील हक्क हितसंबंधासह **(कार पार्क)** शेअर प्रमाणपत्र क्र. ३६ द्वारे धारक क्रमांक १७६ ते १८० (दोन्ही समाविष्ट) चे प्रत्येकी रु. ५०/- च्या पाच पुर्ण भरणा शेअर्समधील हक्क, नामाधिकार आणि हितसंबंध (यापुढे फ्लॅट, शेअर्स आणि कार पार्क 'सदर परिसर'' म्हणून संदर्भित) संपादन करण्यासाठी इच्छुक आहेत आणि मला माझ्या अशिलांद्वारे सदर परिसराच्या विक्रेत्यांच्या नामाधिकारांचा तपास करण्याचे सचित करण्यात

सर्व व्यक्ती ज्यांना सदर परिसर किंवा त्याच्या कोणत्याही भागांमधील किंवा त्यावरील कोणताही दावा जसे की विक्री, अदलाबदल, गहाण, भेट, धारणाधिकर, प्रभार, विश्वस्त भाडेपट्टा, ताबा, वारसा, सुविधाधिकार, करार किंवा अन्य काहीही जर असल्यास तसे यादारे लिखीत स्वरुपात नमूद पुष्ठचर्थ दस्तावेजी पुराव्यांसह निम्नस्वाक्षरीकारांना या तारखेपासून १० (दहा) दिवसांच्या आत कार्यालयीन पत्त्यावर कळवावे, कसूर केल्यास, माझे अशिल विद्यमान सदर परिसराशी संबंधित दावे किंवा आक्षेप नसल्याचे समजतील आणि असल्यास ते त्यागित मानले जातील आणि माझे अशिल असे दावे असल्यास त्याच्या संदर्भाशिवाय व्यवहार पुर्ण करतील, याची कृपया नोंद घ्यावी.

आले आहे.

उपरोक्त संदर्भित परिसराचे परिशिष्ट

प्लॉट क्र. सीटीएस क्र. १८५, साकी विहार रोड. तुंगवा गाव कुर्ला (प.), मुंबई - ४०००७२ येथे स्थित बी-विंग मधील ५ व्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र. ५०३, यासह ''हर्षवर्धन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि.' इमारतीमधील एका कार पार्किंगमधील हक हितसंबंधासह शेअर प्रमाणपत्र क्र. ३६ दारे धारक क्रमांक १७६ ते १८० (दोन्ही समाविष्ट) चे प्रत्येकी रु. ५०/- च्या पाच पुर्ण भरण शेअर्समधील हक्क, नामाधिकार आणि हितसंबंध. (यापुढे फ्लॅट, शेअर्स आणि कार पार्क ''सदर परिसर'' म्हणून संदर्भित) दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी. ठिकाण : मुंबई

> सही/-मे. अंजलिन रॉडीक्स वकील उच्च न्यायालय २१ए-बी, २ रा मजला, नवीन बंसिलाल बिल्डिंग, राजा बहादुर मेंशन,

९-१५ होमी मोदी स्ट्रिट. फोर्ट, मंबई - ४०० ०२३



सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्य रेग्युलेशन २९ सहवाचता रेग्युलेशन ४७ ला अनुसरुन याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सविता ऑईल टेक्नॉलॉजीस लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची सूचना ही त्याच्याशी संबंधित/अनुषंगिक बाबींस मंडळाद्वारे ठरविलेल्या कंपनीच्या पूर्ण भरणा झालेल्या समभाग

| अ. क्र. | कर्जदार/हमीदाराचे नाव आणि पत्ता | स्थावर/ जंगम मिळकतींचे वर्णन सह ज्ञात भार काही असल्यास | एकूण थकवाकी | ई लिलावाची तारीख आणि वेळ | (१) राखीव किंमत आणि (२) मिळकतीची इअर रक्रम ३) बोली वादविण्याची रक्रम | कब्जाची स्थिती (सांपार्शिक/ प्रत्यक्ष) | मिळकतीच्या निरिक्षणाची तारिख आणि वेळ |
|------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
| 9. | श्री. बिष्णु चंद्र तिवारी:- फ्लॅट क्र. ४०२, ४था मजला, वी विंग, इमारत क्र. १, श्री साईं कॉम्प्लेक्स सीएचएसएल, बोलिंज नाका, बालाजी मंदिर जवळ, विरार पूर्व-४०१३०३ जि. पालघर. | | रु. १५.३९ लाख २९.०६.२०१९ रोजीस अधिक त्यावरील नलावलेले व्याज आणि इत्तर प्रभार | १९.०३.२०२१ ११०० वा. ते १५०० वा. | १) रु. १६.०९ लाख २) रु. १.७० लाख ३) रु. ०.२५ लाख | | ०८.०३.२०२१ स.११.०० ते दु.१.०० |
| 5 | मे. बेकेलाईट एंटरग्रावडोस कर्जदार/प्रोप्रायटर:- मे. रचित वेनेडी शाह, पत्ताः गुलमोहर बी पलेंट क्र १०२, पार्क सिटी, अमली, सिल्व- ासा-३९६२३० | गाला क्र. ११३, १ला मजला, इमारत क्र. बी-६, पारसनाथ कॉम्प्लेक्स, गाव-नाळ, तालुका-भिवंडी, जि. ठाणे-४२१ ३०२ बिल्टअप क्षेत्र-२४१५ चौ. फू. स्वरूप- इंडस्ट्रियल गाला. | रु. १०१.९० लाख ३१.०१.२०२१ रोजीस अधिक अधिक त्यावरील | १९.०३.२०२१ ११०० वा. ते १५०० वा. | १) रु. ३९.१२ लाख २) रु. ३.९२ लाख ३) रु. ०.२५ लाख | प्रत्यक्ष कल्जा | |
| | हमीदार:- १) श्री. केनेडी एस. शाह, २) श्रीम. केजल रचित शाह, ३) श्रीम. कुती केनेडी शाह, ४) श्री. विवेक केनेडी शाह, प्रत्या: फ्लंट क्र. ११०६, पुण्या विनोद ३, एसवही रोड, बोरिवली पश्चिम-४०००९२ ५) श्री. संवेत एस. शाह पत्ता: फ्लॅट क्र. बी-२०२, पुण्या विनोद ३, एसवही रोड, बोरिवली पश्चिम-४०००९२ | गाला क्र. ११५, १ला मजला, इमारत क्र. बी-६, पारसनाथ कॉम्प्लेक्स, गाव-नाळ, तालुका-भिवंडी, जि. ठाणे-४२१ ३०२ बिल्टअप क्षेत्र-३०१५ ची. फू. स्वरूप- इंडस्ट्रियल गाला. मार-बंकेला ज्ञान नाही | नलावलेले व्याज आणि इतर प्रभार | 23.51 | १) रु. ३१.८८ लाख २) रु. ३.२० लाख ३) रु. ०.२५ लाख | | |

मुंबई मेट्रो नॉर्थ रिजन : ३ रा मजला, बडोदा हाऊस, दीवाण शॉपिंग सेंटर मागे, एस. व्ही. रोड, जोगेश्वरी (प.),

मुंबई ४०० १०२, ईमेल : recovery.mmnr@bankofbaroda.com वेब :www.bankofbaroda.con



ਰਿ

PRIME FOCUS LIMITED

Registered Office: Prime Focus House, Linking Road, Opp. Citi Bank, Khar (West), Mumbai, Maharashtra, 400 052; CIN: L92100MH 1997PLC108981; Tel. No: 022-67155000; Fax No: 022-67155001 / 67155100; Wel

endations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Prime Focus Limited on the Open Offer to the Public Shareholders of the Prime Focus Limited, Recom under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations. 2011 ("SEBI (SAST) Regulations" All capitalized terms used herein, but not specifically defined herein, shall have the meanings ascribed to them under the Letter of Offer dated February 9, 2021 ("LOF"). 1. Date of meeting February 12, 2021

2. Name of the Target Company (TC) Prime Focus Limited ("Target Company")

बैंक ऑफ़ बडौदा

Bank of Baroda

A2R Holdings ("Acquirer") along with ARR Studio Private Limited ("PAC 1") and Mr. Namit Malhotra ("PAC 2", together with PAC 1, 3. Details of the Offer pertaining to TC "PACs") acting in their capacity as persons acting in concert with the Acquirer, have made an open offer for acquisition of up to 8,23,71,046 (Eight Crores Twenty Three Lakh Seventy One Thousand Forty Six) fully paid up equity shares of face value of INR 1 (Rupee One) each of the Target Company ("Equity Share"), representing 26% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company, from the Public Shareholders, in terms of Regulation 3(2) and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations ("Offer"

The Acquirer has entered into a share purchase agreement, dated December 24, 2020 ("SPA"), wherein the Acquirer has agreed to acquire 10,49,39,361 (Ten Crore Forty Nine Lakh Thirty Nine Thousand Three Hundred and Sixty One) Equity Shares of the Target Company, representing 33.12% of the Expanded Voting Share Capital ("Sale Shares"), from IDBI Trusteeship Services Limited

CRISIL

An S&P Global Compe

| | (acting in its capacity as debenture trustee on behalf of and for the benefit of Credit Suisse AG, Singapore Branch), in 2 (two) tranches, at INR 44.15 (Rupees Forty Four and Fifteen paisa) per Sale Share, subject to, and in accordance with the terms of the SPA. | संपर्कव्यवहार अगोदरच पाठविलेला आहे. दावा करण्यात न कंपनीच्या www.crisil.com ह्या वेबसाइटवर उपलब्ध आ | गहे. | | संह विचारात घेण्याकरिता कंपनीच्या नोंदणीकृत हीएम द्वारे) शुक्रवार, १९ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी | |
|---|---|---|--|--|---|--|
| | The Acquirer is a part of the promoter and promoter group of the Target Company. As on the date of the Public Announcement for the Offer, the promoter and promoter group of the Target Company held 10,46,07,641 (Ten Crore Forty Six Lakh Seven Thousand Six Hundred and Forty One) Equity Shares aggregating to 33.02% of the Expanded Voting Share Capital. Since the Acquirer entered into the SPA to acquire the Equity Shares in excess of 5% of the Expanded Voting Share Capital, in this financial year, the Offer has been made by the Acquirer and the PACs under Regulation 3(2) and other applicable provisions of the SEBI SAST Regulations. | संबंधित भागधारक हे लाभांशांसंबंधी त्यांच्या दाव्यांना समर्थन व खाली दर्शविलेल्या ठिकाणी लगेचच आमच्या निबंधक व साधू शकतील. जर कोणताही दावा मिळाला नाही तर, ज्या अशा समभागांचे कंपनी हस्तांतरण करु शकते, आयईर्प | भाग हस्तांतरण एजन्दशी संपर्क गची सात वर्ष पूर्ण झाली आहेत, | आणि स्टॉक एक्सचेंज वेबसाईट www.nseindia.com उपलब्ध आहे. | ाजर सेक्शन अन्वये www.savita.com यावर म्हनजेच www.bseindia.com आणि सविता ऑर्डल टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड करिता | |
| 4 Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer | Name of the Acquirer: A2R Holdings Persons Acting in Concert with Acquirer: 1. ARR Studio Private Limited; and 2. Mr. Namit Malhotra: | करण्यासाठी ३० दिवसांच्या निर्धारीत कालावधीत आहे. संबंधित भागधारकांची ह्यांची नोंद घ्यावी की, असे हस्तांतरण शिक्षण व संरक्षण निधीमधून लाभांशासह (लाभांशांसह) सदर श | शेअर्सकरिता दावा करू शकतील, | ठिकाणः मुंबई | उदय सी रेगे उदय सी रेगे पनी सचिव आणि कार्यकारी व्हीपी –लिगल | |
| 5 Name of the Manager to the offer | Keynote Financial Services Limited The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbal - 400028 Tel: +91-22-6826 6000-3 Fax: +91-22-6826 6088 SEBI Registration No. INM 000003606 Contact Person: Ms. Pooja Sanghavi / Mr. Shashank Pisat Email: mbd@keynoteindia.net, Website: www.keynoteindia.net | र्जियन रियमर रिपेन्ट आर्जू राजराराः केफिनटेक प्रायव्हेट लि., युनिट: क्रिसिल लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१–३२, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, सेरीलिंगपल्ली मंडल, हैदराबाद – ५०० ०३२. रिलेशनशिप ऑफिसर: श्री. श्रीघर बालामुरली, दूरध्वनीः +९१ ४० ६७१६१५०० | | | सूचना देण्यात येते की आम्ही अमेरिकन लॉजिस्टिक्स देनांक २६ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या बिल ऑफ ०१२५ मध्ये वर्णिल्यानुसार फर्निचर आणि फर्निचर ातून भारतातील चेन्नई बंदरात कंटेनर १ एक्स ४० महेश ए. केसवानी कुआला लुम्पूर, मलेशिया येथून | |
| Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately) IDC Member's relationship with the | Mr. Samu Devarajan (Chairman) Mr. Rivkaran Chadha Mr. Kodi Raghavan Srinivasan The members of the IDC ("IDC Members") are independent and non-executive directors of the Target Company. Further the IDC | टोल फ्री: १ ८०० ३४ ५४ ००१ दूरध्वनी: ईमेल: einward.ris@karvy.com ह्या नोटिशीची प्रत कंपनीच्या www.crisil.com ह्या वेबसाइ वेबसाइटवर (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक य | इटवर तसेच बीएसई लिमिटेडच्या | ११ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी येते वेळी ग मुंबई या ठिकाणापर्यंत माझ्यासह कागग माझ्याकडून सदर बिल ऑफ लेडिंग कु | नलेशिया पासून १९वा रस्ता, खार पश्चिम, | |
| TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any 8 Trading in the Equity shares/other | Members do not hold any Equity Shares or other securities of the Target Company, and other than their position as a director of the Target Company, there is no other contract or relationship between the IDC Members and the Target Company. None of the IDC Members have traded in the Equity Shares or other securities of the Target Company, since their respective | (www.nseindia.com) उपलब्ध आहे. | क्रिसिल लिमिटेडसाठी सही/– | कृपया नोंद घ्यावी. मी याद्वारे बिल ऑ झी इंटरनॅशनल फार ईस्ट लि., | फ लेडिंग हरवल्याची तक्रार नोंदवित आहे. | |
| | s appointment on the board of the Target Company. | स्थळ : मुंबई | मिनल भोसले | ६०४ई विल्मा सेन्ट्रल, जालन आमपंग | , | |
| 9 IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any | None of the IDC Members are directors of Acquirer and PAC 1; None of the IDC Members hold any equity shares of Acquirer and PAC 1; and None of the IDC Members have any contractual relationship with Acquirer and the PACs. | दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०२१ | कंपनी सचिव | ५०४५०, कुआला लुम्पुर, मलेशिया. | | |
| 10 Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members | None of the IDC Members have traded in the shares/other securities of the Acquirer and PAC 1. | | TATA MUTUAL FUND | | जाहीर सूचना माझे अशिल श्री. आर. सुंदरेशन अय्यर यांच्या वतीने तमाम जनतेला याद्वारे सूचना देण्यात येते | |
| 11 Recommendation on the open offer, as to whether the offer is fair and reasonable | The IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable, and in line with the SEBI (SAST) Regulations. | All unitholders are hereby informed about th | NOTICE | under the dividend option of the | की, माझ्या अशिलांनी अंधेरी, मुंबई येथील उप प्रबंधकाच्या कार्यालयात रितसर नोंदणकृत असलेल्या विंसवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ज्यांचे | |
| 12 Summary of reasons for recommendation | The IDC Members have reviewed a) the public announcement dated December 24, 2020 ("PA"), b) Detailed Public Statement ("DPS") published on January 1, 2021, c) Draft Letter of Offer dated January 8, 2021 ("DLOF") and d) LOF. The members of IDC considered the following facts: a) the volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, by the | following scheme. The record date for the same | | Face value NAV (Rs.) as on per unit (Rs.) 16 Feb, '21 | कार्यालय येथे दुकान क्र. १२, मायनर टॉवर, अक्सा बेकरीमागे, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई- ४००१०२ यांच्याकडून ०६/०२/२०१५ | |
| | Acquirer, during the 52 (Fifty Two) weeks and 26 (Twenty Six) weeks immediately preceding the date of the Public Announcement was ₹ 44.00/-; b) the Acquirer and the PACs have made the Offer pursuant to execution of the SPA for purchase of the Sale Shares from IDBI Trusteeship Services Limited (acting in its capacity as debenture trustee on behalf of and for the benefit of Credit Suisse | Tata Equity P/E Fund - Regular Plan (Dividend Trigger Option B - 10%) * | 1.75 | 10.00 69.6241 | रोजीचा विक्रीकरिताच्या कराराच्या सुकृताद्वारे सीटीएस क्र. ४८८, ४९८, ४९९, ४९९/१ ते ९३, गाव गुंडावीली, अंधेरी(पूर्व), मुंबई- | |
| | AG, Singapore Branch), in 2 (two) tranches, at INR 44.15 (Rupees Forty Four and Fifteen paisa) per Sale Share; c) Since the Equity Shares of the Target Company are infrequently traded (within the meaning "infrequently traded shares" under clause (i) of sub- regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI (SAST) Regulations), the fair value of the Equity Shares of Target Company, as arrived by Ms. R. B. Pandya & Co, Chartered Accountant ('Valuer') vide their valuation report dated December 23, 2020, was ₹ 40.50 (Rupees Forty and Fifty paisa) per equity share. | | *Trigger hit for January - March 2021 Quarter. Pursuant to the payment of dividend, the NAV of the scheme would fall to the extent of the payout & statutory levy (if applicable). ** Payment of dividend is subject to Tax deducted at source (TDS) at applicable rates and other statutory levies if any. Dividend distribution is subject to availability & adequacy of distributable surplus on the record | | | |
| | Based on the above facts and review of the PA, DPS, DLOF and LOF the IDC is of the opinion that the Offer Price of ₹ 44.15 (Rupees Forty Four and Fifteen paisa) per equity share offered by the Acquirer and the PACs prima facie appears to be: (a) in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) fair and reasonable. | date. All unitholders holding units under the above business hours, on the record date shall be elig | ११ वा मजला सह कार पार्किंग खरेदी केली आहे. कोणीही कमर्शिअल कार्यालयासह कोणताही व्यवहार करु नये, कोणत्याही व्यक्तीने केल्यास तो स्वत:च्या जोखिमेवर आणि | | | |
| | However, the shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Offer. | Considering the volatile nature of markets, the upto the per unit distributable surplus available | e on the record date in case | of fall in the market. | जबाबदारीवर करावा आणि तसे व्यवहार आणि कृत्य हे आमच्या अशिलांवर बंधनकारक नसेल. | |
| 13 Details of Independent Advisors, if any. | None | Applicable for units held in non-demat for appear in the Register of Unitholders under t | | | १८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी | |
| 14 Any other matter(s) to be highlighted | I None | These payouts would be done to the last bank/ | address details updated in | our records. | आपला विश्वासू जे.एस. जाधव | |
| | after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and f any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI | Applicable for units held in demat form: Di maintained by the Depositories under the Div payouts would be done to the last bank/address | vidend Option of the afores | aid plan as on record date. These | वकील उच्च न्यायालय दुकान क्र. १, स्वामी कंपाऊंड, | |
| Place: Mumbai Date: February 17, 2021 | For and on behalf of the IDC of Prime Focus Limited Sd/- Authorised Signatory | Mutual Fund Investments are sub documents carefully. | pject to market risks | , read all scheme related | जोगेश्वरी पोलिस स्टेशनजवळ, केल्ह्स रोड, जोगेश्वरी(पश्चिम), मुंबई–४०० ०६० | |